

प्रेस नोट

दिनांक 17.09.2020

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

**थाना गौरीगंज पुलिस व एसओजी द्वारा लूट का खुलासा, लूट के 10,000 रुपये नगद के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।**

पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री दयाराम सरोज के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री अर्पित कपूर के कुशल नेतृत्व व प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार के निकट नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.09.2020 को उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना गौरीगंज मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त हंस बहादुर सिंह पुत्र बजरंग बहादुर सिंह नि0 पूरे दिकतन थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 08.09.2020 को बाबूगंज ग्राहक सेवा की घटना में पंजीकृत मु0अ0सं0 434/20 धारा 392 भादवि की घटना में लूट के 10,000 रूपयों के साथ दयालापुर मोड़ के पास से समय करीब 09:30 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया । पूछने पर अभियुक्त हंस बहादुर ने बताया कि दिनांक 08.09.2020 को बाबूगंज ग्राहक सेवा केन्द्र से मैं व अंशू उर्फ अंशुमान पुत्र लल्लू सिंह नि0 राकी प्रतापगढ़ व रोहित बाल्मीकी पुत्र मंहगू नि0 लाला का पुरवा थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली के साथ मिलकर लगभग एक लाख रूपये लूट लिये थे, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया अन्य दोनो फरार हो गये । थाना गौरीगंज पुलिस द्वार विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 08.09.2020 को वादी श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र ओम प्रकाश नि0 मसूदगाड़ा जायस द्वारा सूचना दी गयी कि बैंक आफ बडौदा ग्राहक सेवा केन्द्र, बाबूगंज पर काम कर रहे थे कि समय करीब 10:35 बजे एक लाल पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात बदमाश आये और तमंचा सटाकर लगभग एक लाख रूपये छीन कर भाग गये । उक्त सूचना पर थाना गौरीगंज पर मु0अ0सं0 434/20 धारा 392 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तारी का स्थान:-** दयालापुर मोड़ के पास से **दिनांक-** 17.09.2020 **समय-** 09:30 बजे प्रातः

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

- हंस बहादुर सिंह पुत्र बजरंग बहादुर सिंह नि0 पूरे दिकतन थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

**फरार अभियुक्तों का नाम-**

1. अंशू उर्फ अंशुमान पुत्र लल्लू सिंह नि0 राकी जनपद प्रतापगढ़ ।
2. रोहित बाल्मीकी पुत्र मंहगू नि0 लाला का पुरवा थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली ।

**बरामदगी-**

- लूट के रूपये 10,000/ नगद ।

**पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

- मु0अ0सं0 434/20 धारा 392,411 भादवि थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 विनोद कुमार यादव प्रभारी एसओजी जनपद अमेठी ।
3. उ0नि0 शिवबक्श सिंह थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
4. हे0का0 विजय कुमार सिंह थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
5. का0 प्रदीप पाठक थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
6. का0 अखिलेश कुमार थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
7. का0 सोनू यादव एसओजी जनपद अमेठी ।
8. का0 अमरीश गोस्वामी एसओजी जनपद अमेठी ।
9. का0 धीरेन्द्र कुमार एसओजी जनपद अमेठी ।
10. का0 ज्ञानेन्द्र सिंह एसओजी जनपद अमेठी ।
11. का0 मतलूब अहमद एसओजी जनपद अमेठी ।
12. का0 इमाम हुसैन एसओजी जनपद अमेठी ।
13. का0 अंकित पाण्डेय एसओजी जनपद अमेठी ।
14. का0 दिनेश यादव एसओजी जनपद अमेठी ।